

अध्याय - 8 | व्यावसायिक वित्त के स्रोत

QUIZ
PART-04

1. व्यापारिक साख क्या है?

- A. बैंक से लिया गया ऋण
- B. सरकार द्वारा दी गई सहायता
- C. एक व्यापारी द्वारा दूसरे को दी गई उधार सुविधा
- D. शेयर बाजार में प्राप्त लाभ (C)

व्याख्या: व्यापारिक साख वह उधार सुविधा है जिसमें व्यापारी बिना तत्काल भुगतान के माल प्राप्त करता है।

2. व्यापारिक साख किस अवधि का वित्तीय स्रोत है?

- A. दीर्घ अवधि
- B. मध्यम अवधि
- C. अल्प अवधि
- D. अनिश्चित अवधि (C)

व्याख्या: यह एक अल्प अवधि का वित्तीय स्रोत है क्योंकि भुगतान थोड़े समय में किया जाता है।

3. व्यापारिक साख देने का आधार क्या है?

- A. स्टॉक की उपलब्धता
- B. सरकार की अनुमति
- C. ग्राहक की साख और पूर्व भुगतान व्यवहार
- D. विज्ञापन का स्तर (C)

व्याख्या: ग्राहक की विश्वसनीयता और पिछले भुगतान का रिकॉर्ड साख की अवधि और मात्रा को प्रभावित करते हैं।

4. व्यापारिक साख प्रदान करने में किसकी भूमिका होती है?

- A. केवल ग्राहक की
- B. केवल सरकार की
- C. ग्राहक और विक्रेता दोनों की
- D. केवल बैंक की (C)

व्याख्या: साख की शर्तें ग्राहक की साख और विक्रेता की स्थिति दोनों पर निर्भर करती हैं।

5. व्यापारिक साख का एक प्रमुख गुण क्या है?

- A. इसमें ब्याज लगता है
- B. संपत्तियों पर प्रभार नहीं होता
- C. भुगतान एक वर्ष बाद किया जाता है
- D. स्टॉक कम रखने में मदद करता है (B)

व्याख्या: व्यापारिक साख में व्यापार की संपत्तियों पर कोई प्रभार नहीं लगाया जाता।

6. व्यापारिक साख का कौन-सा लाभ है?

- A. विक्री नहीं बढ़ती
- B. स्टॉक कम हो जाता है
- C. विक्री में वृद्धि की संभावना
- D. तुरंत नकद भुगतान (C)

व्याख्या: व्यापारिक साख खरीद क्षमता बढ़ाकर विक्री वृद्धि में सहायक होती है।

7. व्यापारिक साख का एक प्रमुख नुकसान क्या है?

- A. आसानी से उपलब्ध नहीं
- B. अन्य स्रोतों की तुलना में खर्चीली
- C. इसे प्राप्त करने में बहुत समय लगता है
- D. यह दीर्घकालीन होती है (B)

व्याख्या: व्यापारिक साख अन्य स्रोतों की तुलना में महंगी हो सकती है क्योंकि इसमें छूट आदि का लाभ नहीं मिलता।

8. व्यापारिक साख से किसे अधिक लाभ मिलता है?

- A. बैंक
- B. ग्राहक
- C. सरकार
- D. कर्मचारी (B)

व्याख्या: ग्राहक बिना तत्काल भुगतान के माल प्राप्त कर व्यापार बढ़ा सकता है, जिससे उसे लाभ होता है।

9. व्यापारिक साख किस स्थिति में अधिक दी जाती है?

- A. नए ग्राहकों को
- B. कम विश्वसनीय ग्राहकों को
- C. विश्वसनीय और नियमित भुगतान करने वाले ग्राहकों को
- D. उच्च जोखिम वाले ग्राहकों को (C)

व्याख्या: विश्वसनीय और अच्छे भुगतान रिकॉर्ड वाले ग्राहकों को अधिक साख प्रदान की जाती है।

10. व्यापारिक साख की अवधि किस पर निर्भर करती है?

- A. ऋणदाता की आय पर
- B. ग्राहक की क्रय मात्रा, साख और पूर्व भुगतान पर
- C. कर्मचारियों की संख्या पर
- D. बाजार मूल्य पर (B)

व्याख्या: क्रय मात्रा, भुगतान इतिहास और ग्राहक की साख साख की अवधि को निर्धारित करते हैं।